



World Council
For Health

बेहतर तरीका चार्टर

बेहतर तरीके के 7 सिद्धांत

1. हम सम्मान के साथ काम करते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं
हम इस नियम के अनुसार जीने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके द्वारा इस चार्टर के सिद्धांतों को अधिनियमित करते हैं।

2. हम स्वतंत्र इच्छा वाले स्वतंत्र जीव हैं।
हम अपने जीवन, अपनी पसंद और अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं।

3. हम प्रकृति का हिस्सा हैं।
हम मानते हैं कि मानव और ग्रह कल्याण अन्योन्याश्रित हैं और हम दोनों को समान मात्रा में पोषित करते हैं।

4. आध्यात्मिकता हमारे कल्याण का अभिन्न अंग है।
लोग आध्यात्मिक होते हैं और हम तब फलते-फूलते हैं जब जीवन का सचेत अर्थ और उच्च उद्देश्य होता है।

5. हम साथ-साथ फलते-फूलते हैं।
हम समावेशी हैं और अपने विविध, एकीकृत और सहयोगी समुदाय को महत्व देते हैं।

6. हम विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देते हैं।
हम सम्मानपूर्ण चर्चा का जश्र मनाते हैं जो कि अधिक से अधिक परिष्कृत ज्ञान, करुणा और ज्ञान का साधन है।

7. हम तकनीक का इस्तेमाल सूझबूझ से करते हैं।
हम मानते हैं कि सम्मानपूर्वक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जनता और ग्रह के हितों को बढ़ाने के लिए सीखने और ज्ञान को बढ़ाएगी।



साहस के साथ, हम बर्दाश्त नहीं करते:

- लोगों के अविच्छेद्य अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन*
- लोगों और ग्रह की भलाई से पहले लाभ, शक्ति और प्रभाव आ रहा है।

*भाषण की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और सूचित सहमति का अधिकार, शरीर की अखंडता का अधिकार और यह कि दोषी साबित होने तक हर कोई निर्दोष है।